



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255635
CG-DL-E-22072024-255635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2024/आषाढ 31, 1946

No. 392]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2024/ASHADHA 31, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 431(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उपधारा (7) और धारा 469 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (जन संपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की भर्ती की रीति और सेवा की निबंधन और शर्तें) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके साथ उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, पात्रता आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, पात्रता और इससे संबंधित अन्य मामले वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. सेवा की शर्तें.-विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक और जन संपर्क अधिकारी के वेतन, भत्ते और छुट्टी के मामलों सहित सेवा की शर्तों का नियमन केन्द्र सरकार के सदृश वेतन स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू नियमों और विनियमनों के अनुसार किया जाएगा।

5. आवास.- विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक और जन संपर्क अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के सदृश वेतन स्तरों के अधिकारियों के लिए लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित दर के अनुसरण में मकान किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा;

परंतु यह कि उन्हें साधारण पूल रिहायशी आवास के लिए पात्र घोषित किया गया हो और उनके पास उन्हें आवंटित सरकारी आवास हो, तो वे आवास किराया भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. **अनुशासनिक कार्रवाई.-** विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक और जन संपर्क अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई केन्द्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमों के अधीन होगी।

7. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति;

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ii) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों की नियुक्ति के पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार को यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों में कुछ भी केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूत पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) लोक संपर्क अधिकारी	*1 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	56100-177500/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में इन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित है:-	लागू नहीं होता

			<p>या प्रशासन या सार्वजनिक उपक्रम या सांविधिक स्वायत्त निकाय के अधिकारी</p> <p>(क)</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों या समकक्ष;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) 47600-151100/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 में चार वर्ष की नियमित सेवा या मूल काडर या विभाग में समकक्ष उस पर नियमित नियुक्ति के आधार पर; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले:-</p> <p>(i) किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या समकक्ष या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता या जन संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या</p> <p>(ii) प्रोन्नति घटनाक्रम, प्रदर्शनी, यात्रा आदि से जुड़े सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संस्था/निकाय में पत्रकारिता या जन-संपर्क में दो वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की</p>	<p>(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, - अध्यक्ष</p> <p>महाप्रबंधक विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक/उप सचिव, संयुक्त सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) सहायक प्रबंधक	*4 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	47600-151100/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त निकाय के अधिकारी या समकक्ष (क)</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों</p> <p>(ii) 44900-142400/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में दो वर्ष की नियमित सेवा या मूल कांडर या विभाग में समकक्ष उस पर नियमित नियुक्ति के आधार पर; या</p> <p>(iii) मूल कांडर या विभाग में 35400-112400/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 में छह वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष;</p>	<p>प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित है:-</p> <p>(i) महाप्रबंधक विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण – अध्यक्ष</p> <p>(ii) उप-महाप्रबंधक विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण – सदस्य</p> <p>(iii) अवर सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

			<p>और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों</p> <p>आवश्यक</p> <p>(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री अधिमानतः वाणिज्य में या समकक्ष</p> <p>(ii) प्रशासन अथवा स्थापना मामलों में दो वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत एवं प्रबंधन लेखाकार या कंपनी सचिव</p> <p>टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

[फा. सं. 09003/1/2024-आईईपीएफ]

अनीता शाह अकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2024

G.S.R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 125 and sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Manner of Recruitment and Terms and Conditions of Service of Public Relation Officer and Assistant Manager) Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, eligibility etc.** - The method of recruitment, age limits, qualifications and other matters relating thereto shall be such as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Conditions of service.** - The conditions of service of Public Relation Officer and Assistant Manager of the Investor Education and Protection Fund Authority in matters of pay, allowances, leave and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to the officers and employees of the corresponding pay level of the Central Government.

5. **Accommodation.** - The Public Relation Officer and the Assistant Manager of the Investor Education and Protection Fund Authority shall have the option of claiming house rent allowance in accordance with the rate prescribed by the Central Government as applicable to officers of the corresponding pay levels of the Central Government:

Provided that they shall not be eligible for house rent allowance in case they are declared eligible for general pool residential accommodation and occupy such Government accommodation allotted to them.

6. **Disciplinary Proceedings.** - The Public Relation Officer and the Assistant Manager of the Investor Education and Protection Fund Authority shall be subject to disciplinary proceedings as per rules and regulations applicable to officers and employees of the corresponding level in pay matrix of the Central Government.

7. **Disqualification.** - No person;

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation in age limit and other concession required to be provided for the scheduled casts, the scheduled tribes, the other backward classes, the ex serviceman and other special categories of persons in accordance with the order issued by the central government.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Education and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Public Relation Officer	1* (2024) *Subject to variation depending on work load	Group "A"	Level-10 in the pay matrix of ₹56100-177500	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion /deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short-term contract) Deputation (including short-term contract)	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or public sector undertaking or statutory or autonomous body: (a) (i) holding analogous post on regular basis or equivalent in the parent cadre or department; or (ii) with four years regular service in Level-8 in the pay matrix of Rs.47600-151100 or equivalent in the parent cadre or department rendered after appointment thereto on regular basis; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline or Post Graduate Diploma in Journalism or Mass Communication from a recognised	The Selection Committee for considering deputation (including short-term contract) consists of: Chief Executive officer, Investor Education and Protection Fund Authority –Chairman (ii) General Manager, Investor Education and Protection Fund Authority –Member (iii) Director / Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs –Member	Not Applicable.

			<p>University or Institute; and</p> <p>(ii) two years' experience of journalistic publicity or public relation work in a Government Department or public sector Undertaking or autonomous bodies organization/body dealing with organising promotional events, exhibitions, visits etc.</p> <p>Note 1.- The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed three years .</p> <p>Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications</p>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Manager	4* (2024) *Subject to variation depending on work load	Group 'B'	Level-8 in the pay matrix of ₹47600-151100	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Not Applicable	Deputation (including short-term contract)	<p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies:</p> <p>(a)</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis or equivalent.</p>	<p>Selection Committee for considering deputation (including short- term contract) consists of:</p> <p>(i) General Manager, Investor Education and Protection Fund Authority—Chairman</p> <p>(ii) Deputy General Manager, Investor Education and</p>	Not Applicable

			<p>(ii) with two years regular service in Level-7 in the pay matrix of (Rs.44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department rendered after appointment thereto on regular basis or</p> <p>(iii) with six years regular service in Level-6 in the pay matrix of (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>Essential.-</p> <p>(i) Bachelor's Degree or equivalent preferably in Commerce from a recognised University or Institute and</p> <p>(ii) two years' experience in administration or establishment matters.</p> <p>Desirable.-</p> <p>(i) Chartered Accountant or Cost & Management Accountant or Company Secretary</p> <p>Note 1. The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications</p>	<p>Protection Fund Authority -Member</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[F. No. 09003/1/2024-IEPF]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.